

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रपरिषद् की बैठक में पुरानी पेंशन योजना के क्रयान्वयन के लिये नयिमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी समेत एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये समान पात्रता परीक्षा आयोजित कराने जैसे कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये गए।

प्रमुख बडि

- बैठक में 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नयिकृत हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रयान्वयन हेतु राजस्थान सविलि सेवा (पेंशन) नयिम, 1996, राजस्थान सविलि सेवा (अंशदायी पेंशन) नयिम, 2005, वभिन्न पुनरीकषति वेतनमान नयिमों एवं राजस्थान सविलि सेवा (चकितिसा परचिर्या) नयिम, 2013 में संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
- इससे 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नयिकृत हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानवृत्ति पर पेंशन परलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थय योजना (RGHS) के अंतर्गत केशलेस चकितिसा सुवधि भी प्राप्त कर सकेंगे।
- 31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नयिमानुसार पेंशनरी परलाभ अप्रैल, 2022 से देय होंगे।
- प्रदेश में भरती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली वभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे- ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयकि कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा (CTET) आयोजित होगी। इसके लिये राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयकि सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नयिम, 2022 बनाया जाएगा।
- बजट 2022-23 की घोषणा के अनुरूप राजस्थान के नविसी पैरालंपिक पदक वजैताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नःशुल्क 25 बीघा भूमि के आवंटन का नरिणय लिया गया है।
- जैसलमेर ज़िले में 6,000 हैकटेयर राजकीय सवियचक भूमिको 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिये राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अकषय ऊर्जा नगिम लमिटिड एवं अडानी समूह के मध्य करार से स्थापति संयुक्त उपक्रम अडानी रनियूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लमिटिड को कीमतन भूमि आवंटन पर नरिणय कया गया है।
- इसके अलावा जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में कुल रकबा 290.62 हैकटेयर राजकीय भूमिको ईडन रनियूएबल पैसी प्राइवेट लमिटिड को सशर्त कीमतन आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर नरिणय कया है। इस नरिणय से 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हो सकेगी।